



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]
No. 52]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जनवरी 10, 2008/पौष 20, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 10, 2008/PAUSA 20, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2008

का.आ. 74(अ)— तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और नियम 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नांकित सदस्यों (उन सदस्यों को छोड़कर जिनके नाम के सम्मुख विनिर्दिष्ट अवधि का उल्लेख किया गया है) को तीन वर्षों की अवधि के लिए तम्बाकू बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) की अधिसूचना सं. का.आ. 5417, तारीख 17 दिसम्बर, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) “धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (घ) के अंतर्गत नियुक्त” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 13 और 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

13. सचिव, कृषि, महाराष्ट्र सरकार सदस्य—महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए (वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे)

14. प्रधान सचिव, कृषि

सदस्य—उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए (वह अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे)

(ii) “धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ङ) के अंतर्गत नियुक्त” शीर्षक के अन्तर्गत क्रम संख्या 18 से 21 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याओं और उससे संबंधित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

18. श्री यम्मी भाद्रि रेड्डी
अधिवक्ता,
सुजाता नगर, तीसरी लाइन,
मनगाम्पूर डोन्का,
ओनगोल, प्रकाशम जिला,
आन्ध्र प्रदेश

सदस्य (तम्बाकू उपज-कर्ताओं/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

19. श्री नरेश चंद जैन
भागीदार
भगवानदास शोभला जैन,
चमेली चौक,
सागर-470002, मध्य प्रदेश

सदस्य (तम्बाकू उपज-कर्ताओं/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

20. श्री आर हनुमंत राव
कार्यकारी भागीदार
जयलक्ष्मी एक्सपोर्ट्स
553ए, अन्ना सलाई,
थेनमपेट,
चेन्नई-600018

सदस्य (तम्बाकू उपज-कर्ताओं/निर्यातकों/प्रसंस्कर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

21. श्री के. वी. रायडु,
भागीदार,
के. के. मोहन इंटरप्राइजेज
3-28-4, दूसरी लाइन,
दूसरी क्रॉस रोड, बृंदावन गार्डन्स
गुन्दुर-6
22. रिक्त
23. रिक्त
24. रिक्त

[फा. सं. 8/4/2003-ईपी (एग्री-VI)]

दिनेश शर्मा, सयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—तम्बाकू बोर्ड का गठन करते हुए मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 5417, दिनांक 17-12-1975 द्वारा 27-12-1975 को प्रकाशित हुई थी और बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उसमें संशोधन किए गए :

- (i) का.आ. 110(अ), दिनांक 19-2-1979
- (ii) का.आ. 112(अ), दिनांक 1-3-1982
- (iii) का.आ. 651(अ), दिनांक 4-9-1985
- (iv) का.आ. 832(अ), दिनांक 2-9-1988
- (v) का.आ. 1158(अ), दिनांक 7-12-1988
- (vi) का.आ. 376(अ), दिनांक 10-5-1990
- (vii) का.आ. 678(अ), दिनांक 4-9-1990
- (viii) का.आ. 934(अ), दिनांक 5-12-1990
- (ix) का.आ. 569(अ), दिनांक 4-1-1991
- (x) का.आ. 887(अ), दिनांक 20-12-1991
- (xi) का.आ. 412(अ), दिनांक 9-6-1992
- (xii) का.आ. 654(अ), दिनांक 2-8-1994
- (xiii) का.आ. 197(अ), दिनांक 14-3-1995
- (xiv) का.आ. 495(अ), दिनांक 1-6-1995
- (xv) का.आ. 238(अ), दिनांक 19-3-1996
- (xvi) का.आ. 802(अ), दिनांक 19-11-1996
- (xvii) का.आ. 313(अ), दिनांक 8-4-1997
- (xviii) का.आ. 663(अ), दिनांक 16-9-1997
- (xix) का.आ. 501(अ), दिनांक 10-6-1998
- (xx) का.आ. 588(अ), दिनांक 14-7-1998
- (xxi) का.आ. 620(अ), दिनांक 23-7-1998
- (xxii) का.आ. 736(अ), दिनांक 28-8-1998

- (xxiii) का.आ. 510(अ), दिनांक 24-7-2001
- (xxiv) का.आ. 85(अ), दिनांक 18-1-2002
- (xxv) का.आ. 531(अ), दिनांक 16-5-2002
- (xxvi) का.आ. 453(अ), दिनांक 20-5-2002
- (xxvii) का.आ. 332(अ), दिनांक 17-3-2005
- (xxviii) का.आ. 865(अ), दिनांक 16-6-2005 तथा
- (xxix) का.आ. 1006(अ), दिनांक 14-7-2005

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2008

S.O. 74(E).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints the following members as members of the Tobacco Board for a period of three years (except the members against whom specific period has been mentioned), with effect from the date of publication of this notification, and for that purpose makes following further amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), number S.O. 5417 dated the 17th December, 1975, namely :—

In the said notification,—

- (i) Under the heading “appointed under clause (d) of sub-section (4) of Section 4”, for the serial numbers 13 and 14 and entries relating thereto, the following serial number and entries thereto shall be substituted, namely :—

13. Secretary, Agriculture, Government of Maharashtra	Member - to represent the Government of Maharashtra (he will hold office for a period of two years with effect from the date of publication of the notification)
14. Principal Secretary, Agriculture	Member - to represent the Government of Orissa (he will hold office for a period of two years with effect from the date of publication of the notification)
- (ii) Under the heading “appointed under clause (e) of sub-section (4) of Section 4”, for the serial numbers 18

to 21 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries thereto shall be substituted, namely :—

18. Shri Pammi Bhadri Reddy Member—(to represent the Growers/Advocate, the Growers/ Sujata Nagar, 3rd Line Exporters/Processors of Mangamur Donka, Tobacco) Ongole, Prakasam Dist., A.P.
19. Shri Naresh Chand Jain Member—(to represent the Growers/Partner, the Growers/ Bhagwandas Shobhala Exporters/Processors of Jain, Tobacco) Chameli Chowk, Sagar-470002 (M.P.)
20. Shri R. Hanumantha Rao Member—(to represent the Growers/Executive Partner, the Growers/ Jayalakshmi Exports Exporters/Processors of 553A, Anna Salai, Tobacco) Thenampet Chennai-600018.
21. Shri K.V. Rayudu Member—(to represent the Growers/Partner, the Growers/ K.K. Mohan Enterprises Exporters/Processors of # 3-28-4, 2nd Line, 2nd Tobacco) Cross Road, Brundavan Gardens, Guntur-6.
22. Vacant
23. Vacant
24. Vacant

[F. No. 8/4/2003-EP. (Agri. VI)]

DINESH SHARMA, Jt. Secy.

Note:— The principal notification constituting the Tobacco Board was issued *vide* S.O. 5417, dated the 17th December, 1975 which was published in the Gazette of India, dated the 27th December, 1975 and subsequently amended *vide* :

- (i) S.O. 110(E), dated 19-2-1979
- (ii) S.O. 112(E), dated 1-3-1982
- (iii) S.O. 651(E), dated 4-9-1985
- (iv) S.O. 832(E), dated 2-9-1988

- (v) S.O. 1158(E), dated 7-12-1988
- (vi) S.O. 376(E), dated 10-5-1990
- (vii) S.O. 678(E), dated 4-9-1990
- (viii) S.O. 934(E), dated 5-12-1990
- (ix) S.O. 569(E), dated 4-1-1991
- (x) S.O. 887(E), dated 20-12-1991
- (xi) S.O. 412(E), dated 9-6-1992
- (xii) S.O. 654(E), dated 2-8-1994
- (xiii) S.O. 197(E), dated 14-3-1995
- (xiv) S.O. 495(E), dated 1-6-1995
- (xv) S.O. 238(E), dated 19-3-1996
- (xvi) S.O. 802(E), dated 19-11-1996
- (xvii) S.O. 313(E), dated 8-4-1997
- (xviii) S.O. 663(E), dated 16-9-1997
- (xix) S.O. 501(E), dated 10-6-1998
- (xx) S.O. 588(E), dated 14-7-1998
- (xxi) S.O. 620(E), dated 23-7-1998
- (xxii) S.O. 736(E), dated 28-8-1998
- (xxiii) S.O. 510(E), dated 24-7-2001
- (xxiv) S.O. 85(E), dated 18-1-2002
- (xxv) S.O. 531(E), dated 16-5-2002
- (xxvi) S.O. 453(E), dated 20-5-2002
- (xxvii) S.O. 332(E), dated 17-3-2005
- (xxviii) S.O. 865(E), dated 16-6-2005 and
- (xxix) S.O. 1006(E), dated 14-7-2005